

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 125]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 मार्च 2014—फाल्गुन 13, शक 1935

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2014

फा. क्र. 21-(8)-चार-2014-142.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 434-MP-HP-2014 दिनांक 24 फरवरी 2014 एवं सं. 434-म.प्र.-लो.स.-2014, दिनांक 24 फरवरी 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक:-24 फरवरी, 2014
05 फाल्गुन, 1935(शक)

अधिसूचना

सं 434/म0प्र0-लो0स0/2014:- भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अपनी अधिसूचना संख्या 434/म0प्र0-लो0स0/2008 (1) दिनांक 03 मार्च, 2009 तथा उसमें समय समय पर हुए संशोधनों का अधिकमण करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के अधिकारी/अधिकारियों को, उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में मध्य प्रदेश राज्य के यथा-विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के कार्यों के निर्वहन में, उसकी सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है:-

सारणी

संसदीय क्षेत्र का क्रमांक व नाम (1)	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (2)	सहायक रिटर्निंग आफिसर (3)
1. मुरैना	1. श्योपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), श्योपुर
	2. विजयपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विजयपुर
	3. सबलगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सबलगढ़
	4. जौरा	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जौरा
	5. सुमावली	डिप्टी कलेक्टर (नजूल)
	6. मुरैना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुरैना
	7. दिमनी	1. संयुक्त कलेक्टर, मुरैना 2. डिप्टी कलेक्टर, मुरैना
	8. अम्बाह (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बाह
2. भिण्ड (अ.जा.)	9. अटेर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अटेर
	10. भिण्ड	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भिण्ड
	11. लहार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लहार
	12. मेहगांव	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेहगांव

संसदीय क्षेत्र का क्रमांक व नाम	विधान सभा निवाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)	(3)
	13. गोहद (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोहद
	20. सेवड़ा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सेवड़ा
	21. भाण्डेर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाण्डेर
	22. दतिया	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दतिया
3. ग्वालियर	14. ग्वालियर ग्रामीण	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ग्वालियर ग्रामीण
	15. ग्वालियर	अपर कलेक्टर, ग्वालियर
	16. ग्वालियर पूर्व	संयुक्त कलेक्टर, ग्वालियर
	17. ग्वालियर दक्षिण	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (शहर—लश्कर), ग्वालियर
	18. भितरवार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भितरवार
	19. डबरा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा
	23. करेरा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), करेरा
	24. पोहरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोहरी
4. गुना	25. शिवपुरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शिवपुरी
	26. पिछोर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर
	27. कोलारस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोलारस
	28. बागरोरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुना
	29. गुना (अ.जा.)	डिप्टी कलेक्टर, गुना
	32. अशोकनगर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अशोकनगर
	33. चंदेरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चंदेरी
	34—मुंगावली	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगावली
5. सागर	35. बीना (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बीना
	36. खुरई	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुरई
	37. सुरखी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राहतगढ़
	40. नरयावली (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर
	41. सागर	अपर कलेक्टर, सागर
	146. कुरवाई (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरवाई
	147. सिरोज	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिरोज
	148. शमशावाद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नटेरन
6. टीकमगढ़ (अ.जा.)	43. टीकमगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़
	44. जतारा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा
	45. पृथ्वीपुर	1. संयुक्त कलेक्टर, टीकमगढ़ 2. डिप्टी कलेक्टर, टीकमगढ़
	46. निवाड़ी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), निवाड़ी

संसदीय क्षेत्र का क्रमांक व नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्णिंग आफिसर
(1)	(2)	(3)
	47. खरगापुर	डिप्टी कलेक्टर, टीकमगढ़
	48. महाराजपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नौगांव
	51. छतरपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छतरपुर
	52. बिजावर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर
7. दमोह	38. देवरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवरी
	39. रहली	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रहली
	42. बण्डा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बण्डा
	53. मलहरा	डिप्टी कलेक्टर, छतरपुर
	54. पथरिया	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पथरिया
	55. दमोह	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दमोह
	56. जबेरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तेंदुखेड़ा
	57. हटा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हटा
8. खजुराहो	49. चांदला (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर
	50. राजनगर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर
	58. पवई	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पवई
	59. गुन्नौर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुन्नौर
	60. पन्ना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पन्ना
	92. विजयराघवगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विजयराघवगढ़
	93. मुड़वारा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुड़वारा
	94. बहोरीबंद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बहोरीबंद
9. सतना	61. चित्रकूट	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मझगवाँ
	62. रेगांव (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रघुराजनगर
	63. सतना	संयुक्त कलेक्टर, सतना
	64. नागौद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नागौद
	65. मैहर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैहर
	66. अमरपाटन	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अमरपाटन
	67. रामपुर-बघेलान	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामपुर बघेलान
10. रीवा	68. सिरमौर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिरमौर
	69. सेमरिया	संयुक्त कलेक्टर (भू-अभिलेख), रीवा
	70. त्यौर्थर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), त्यौर्थर
	71. मऊगंज	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हनुमना
	72. देवतालाब	डिप्टी कलेक्टर, रीवा

संसदीय क्षेत्र का क्रमांक व नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)	(3)
	73. मनगवाँ (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनगवाँ
	74. रीवा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हुजूर, रीवा
	75. गुढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुढ़
11. सीधी	76. चुरहट	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, चुरहट
	77. सीधी	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, गोपद बनास
	78. सिहावल	डिप्टी कलेक्टर, सीधी
	79. चितरंगी (अ.ज.जा.)	अपर कलेक्टर, सिंगरौली
	80. सिंगरौली	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिंगरौली
	81. देवसर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवसर
	82. धौहनी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मझौली
	83. ब्योहारी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्योहारी
12. शहडोल (अ.ज.जा.)	84. जैयसिंहनगर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर
	85. जैतपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जैतपुर
	86. कोतमा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोतमा
	87. अनूपपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनूपपुर
	88. पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.)	अपर कलेक्टर, अनूपपुर
	89. बांधवगढ़ (अ.ज.जा.)	अपर कलेक्टर, उमरिया
	90. मानपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मानपुर
	91. बड़वारा (अ.ज.जा.)	अपर कलेक्टर, कटनी
13. जबलपुर	95. पाटन	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन
	96. बरगी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जबलपुर
	97. जबलपुर पूर्व (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ओमती जबलपुर
	98. जबलपुर उत्तर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोतवाली जबलपुर
	99. जबलपुर केंट	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रांझी जबलपुर
	100. जबलपुर परिचम	अनुविभागीय अधिकारी, गोरखपुर, जबलपुर
	101. पनागर	अपर कलेक्टर-2, जबलपुर
	102. सिहोरा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिहोरा
14. मण्डला (अ.ज. जा.)	103. शहपुरा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शहपुरा
	104. डिण्डोरी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डिण्डोरी
	105. बिछिया (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिछिया
	106. निवास (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), निवास,
	107. मण्डला (अ.ज.जा.)	अपर कलेक्टर, मण्डला

संसदीय क्षेत्र का क्रमांक व नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)	(3)
	116. केवलारी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), केवलारी
	117. लखनादौन (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लखनादौन
	118. गोटेगांव (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोटेगांव
15. बालाघाट	108. बैहर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैहर
	109. लांजी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लांजी
	110. परसवाड़ा	अपर कलेक्टर, बैहर
	111. बालाघाट	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालाघाट
	112. वारासिवनी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वारासिवनी
	113. कटंगी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटंगी
	114. बरघाट (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (शहर), सिवनी
	115. सिवनी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी
16. छिंदवाड़ा	122. जुन्नारदेव (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जुन्नारदेव
	123. अमरवाड़ा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अमरवाड़ा
	124. चौरई	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चौरई
	125. सौंसर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर
	126. छिन्दवाड़ा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छिन्दवाड़ा
	127. परासिया (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), परासिया
	128. पांडुर्णा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पांडुर्णा
17. होशंगाबाद	119. नरसिंहपुर	अपर कलेक्टर (राजस्व), नरसिंहपुर
	120. तेंदूखेड़ा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तेंदूखेड़ा
	121. गाडरवारा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गाडरवारा
	136. सिवनी मालवा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी मालवा
	137. होशंगाबाद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), होशंगाबाद
	138. सोहागपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर
	139. पिपरिया (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिपरिया
	140. उदयपुरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुरा
18. विदिशा	141. भोजपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भोजपुर
	142. सांची (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायसेन
	143. सिलवानी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेगमगंज
	144. विदिशा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा
	145. बासौदा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बासौदा
	156. बुधनी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बुधनी
	158. इछावर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इछावर

संसदीय क्षेत्र का क्रमांक व नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)	(3)
19. भोपाल	173. खातेगांव	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कन्नौद
	149. बैरसिया (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी, तहसील बैरसिया
	150. भोपाल उत्तर	अनुविभागीय अधिकारी, बैरागढ़ वृत्त
	151. नरेला	अनुविभागीय अधिकारी, गोविन्दपुरा वृत्त
	152. भोपाल दक्षिण—पश्चिम	अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त
	153. भोपाल मध्य	अनुविभागीय अधिकारी, नजूल शहर भोपाल वृत्त
	154. गोविन्दपुरा	अनुविभागीय अधिकारी, एम. पी. नगर वृत्त
20. राजगढ़	155. हुजूर	अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर
	159. सीहोर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सीहोर
	30. चाचौड़ा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चाचौड़ा
	31. राघोगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राघोगढ़
	160. नरसिंहगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहगढ़
	161. ब्यावरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा
	162. राजगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़
21. देवास (अ.जा.)	163. खिलचीपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर
	164. सारंगपुर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगपुर
	165—सुसनेर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सुसनेर
	157. आष्टा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आष्टा
	166—आगर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आगर
	167—शाजापुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाजापुर
	168—शुजालपुर	अपर कलेक्टर, शाजापुर
22. उज्जैन (अ.जा.)	169—कालापीपल	अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर
	170. सोनकच्छ (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनकच्छ
	171. देवास	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवास
	172. हाटपिपल्या	डिप्टी कलेक्टर, देवास
	212. नागदा—खाचरोद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खाचरोद
	213. महिदपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महिदपुर
	214. तराना (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तराना
23. मंदसौर	215. घटिया (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया
	216. उज्जैन उत्तर	संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन
	217. उज्जैन दक्षिण	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन
	218. बड़नगर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़नगर
	223. आलोट (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आलोट
	222. जावरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जावरा
	224. मंदसौर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मंदसौर

संसदीय क्षेत्र का क्रमांक व नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)	(3)
	225. मल्हारगढ़ (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मल्हारगढ़
	226. सुवासरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सीतामढ़
	227. गरोठ	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरोठ
	228. मनासा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनासा
	229. नीमच	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नीमच
	230. जावद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जावद
24. रतलाम (अ.ज.जा.)	191. अलीराजपुर (अ.ज.जा.) 192. जोबट (अ.ज.जा.) 193. झाबुआ (अ.ज.जा.) 194. थांदला (अ.ज.जा.) 195. पेटलावद (अ.ज.जा.) 219. रतलाम ग्रामीण (अ.ज.जा.) 220. रतलाम सिटी 221. सैलाना (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अलीराजपुर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जोबट अनुविभागीय दण्डाधिकारी, झाबुआ अनुविभागीय दण्डाधिकारी, थांदला अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पेटलावद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रतलाम अपर कलेक्टर, रतलाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सैलाना
25. धार (अ.ज.जा.)	196. सरदारपुर (अ.ज.जा.) 197. गंधवानी (अ.ज.जा.) 198. कुक्षी (अ.ज.जा.) 199. मनावर (अ.ज.जा.) 200. धरमपुरी (अ.ज.जा.) 201. धार 202. बदनावर 209. डॉ. अम्बेडकरनगर —महू	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर डिप्टी कलेक्टर, धार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर संयुक्त कलेक्टर एवं भू—अर्जन एवं पुर्नवास अधिकारी, सरदार सरोवर पुर्नवास अधिकारी, मनावर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बदनावर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर—महू
26. इंदौर	203. देपालपुर 204. इन्दौर-1 205. इन्दौर-2 206. इन्दौर-3 207. इन्दौर-4 208. इन्दौर-5 210. राऊ 211. सांवेर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी, देपालपुर अपर कलेक्टर एवं प्रबन्ध संचालक, औद्योगिक केन्द्र, विकास निगम, इंदौर संयुक्त कलेक्टर, इंदौर अपर कलेक्टर, इंदौर सहायक कलेक्टर, इंदौर डिप्टी कलेक्टर, इंदौर डिप्टी कलेक्टर, इंदौर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर
27. खरगौन (अ.ज.जा.)	183. महेश्वर (अ.जा.) 184. कसरावद 185. खरगौन	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मण्डलेश्वर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगौन

संसदीय क्षेत्र का क्रमांक व नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)	(3)
	186. भगवानपुरा (अ.ज.जा.)	संयुक्त कलेक्टर, खरगौन
	187. सेंधवा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सेंधवा
	188. राजपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर
	189. पानसेमल (अ.ज.जा.)	डिप्टी कलेक्टर, बड़वानी
	190. बड़वानी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वानी
28. खण्डवा	174. बागली (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बागली
	175. मांधाता	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुनासा
	177. खण्डवा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खंडवा
	178. पंधाना (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंधाना
	179. नेपानगर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नेपानगर
	180. बुरहानपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बुरहानपुर
	181. भीकनगांव (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव
	182. बड़वाहा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाहा
29. बैतूल (अ.ज.जा.)	129. मुलताई	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुलताई
	130. आमला (अ.जा.)	डिप्टी कलेक्टर, बैतूल
	131. बैतूल	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैतूल
	132. घोड़ाडोंगरी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाहपुर
	133. भैसदेही (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैसदेही
	134. टिमरनी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी
	135. हरदाँ	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा
	176. हरसूद (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरसूद

आदेश से,
 (बनाड़ जॉन)
 सचिव,
 भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

Dated:-24th February,2014
05 Phalgun, 1935 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 434/MP-HP/2014: - The Election Commission of India, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification No.434/MP-HP/2008 dated 03rd March, 2009 as amended from time to time, hereby appoints in consultation with Government of the state of Madhya Pradesh, the Officer/Officers of the Government of Madhya Pradesh specified in column 3 of the Table attached herewith, as the Assistant Returning Officer/Officers, to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency of the State of Madhya Pradesh as specified in column (1) of the said table in the performance of the function of such Returning Officer:-

No. & Name of Parliamentary Constituency	No. & Name of Assembly Constituency	Designation of Assistant Returning Officer
1-MORENA	1 Sheopur	Sub Divisional Officer (Revenue), Sheopur
	2 Vijaypur	Sub Divisional Officer (Revenue), Vijaypur
	3 Sabalgarh	Sub Divisional Officer (Revenue), Sabalgarh
	4 Joura	Sub Divisional Megistrate, Joura
	5 Sumawali	Deputy Collector (Nazul)
	6 Morena	Sub Divisional Officer (Revenue), Morena

2-BHIND (SC)	7	Dimani	1. Joint Collector, Morena 2. Deputy Collector Morena
	8	Ambah (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Ambah
	9	Ater	Sub Divisional Officer (Revenue), Ater
	10	Bhind	Sub Divisional Officer (Revenue), Bind
	11	Lahar	Sub Divisional Officer (Revenue), Lahar
	12	Mehgaon	Sub Divisional Officer (Revenue), Mahgaon
	13	Gohad (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Gohad
	20	Sewda	Sub Divisional Officer (Revenue), Sewda
	21	Bhander (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Bhander
	22	Datia	Sub Divisional Officer (Revenue), Datia
3-GWALIOR	14	Gwalior Rural	Sub Divisional Officer (Revenue), Gwalior Rural
	15	Gwalior	Additional Collector, Gwalior
	16	Gwalior East	Joint Collector, District Gwalior
	17	Gwalior South	Sub-Divisional Officer (Revenue) (City-Lashkar), Gwalior
	18	Bhitarwar	Sub-Divisional Officer (Revenue), Bhitarwar
	19	Dabra (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Dabra
	23	Karera (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Karera
	24	Pohari	Sub Divisional Officer (Revenue), Pohari
	25	Shivpuri	Sub Divisional Officer (Revenue), Shivpuri
	26	Pichhore	Sub Divisional Officer (Revenue), Pichhor
4-GUNA	27	Kolaras	Sub Divisional Officer (Revenue), Kolaras
	28	Bamori	Sub Divisional Officer (Revenue), Guna
	29	.Guna (SC)	Deputy Collector, Guna
	32	Ashok Nagar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Ashok Nagar
	33	Chanderi	Sub Divisional Officer (Revenue), Chanderi
	34	Mungaoli	Sub Divisional Officer (Revenue), Mungaoli

5-SAGAR	35	Bina (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Bina
	36	Khurai	Sub Divisional Officer (Revenue), Khurai
6-TIKAMGARH (SC)	37	Surkhi	Sub Divisional Officer (Revenue), Rahatgarh
	40	Naryoli (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sagar
	41	Sagar	Additional Collector, Sagar
	146	Kurwai (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Kurwai
	147	Sironj	Sub Divisional Officer (Revenue), Sironj
	148	Shamshabad	Sub Divisional Officer (Revenue), Nateran
	43	Tikamgarh	Sub Divisional Officer (Revenue), Tikamgarh
	44	Jatara (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Jatara
7-DAMOH	45	Prithvipur	1. Joint Collector, Tikamgarh 2. Deputy Collector, Tikamgarh
	46	Niwari	Sub Divisional Officer (Revenue), Niwari
	47	Khargapur	Deputy Collector, Tikamgarh
	48	Maharajpur	Sub Divisional Officer (Revenue), Nowgong
	51	Chhatarpur	Sub Divisional Officer (Revenue), Chhatarpur
	52	Bijawar	Sub Divisional Officer (Revenue), Bijawar
	38	Deori	Sub Divisional Officer (Revenue), Deori
	39	Rehli	Sub Divisional Officer (Revenue), Rehli
8-KHAJURAHO	42	Banda	Sub Divisional Officer (Revenue), Banda
	53	Malhara	Deputy Collector, Chhatarpur
	54	Pathariya	Sub Divisional Officer (Revenue), Pathariya
	55	Damoh	Sub Divisional Officer (Revenue), Damoh
	56	Jabera	Sub Divisional Officer (Revenue), Tendukhedha
	57	Hatta (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Hatta
	49	Chandla (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Lawkushnagar
	50	Rajnagar	Sub Divisional Officer (Revenue), Rajnagar

	58	Pawai	Sub Divisional Officer (Revenue), Pawai
	59	Gunnaor (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Gunour
	60	Panna	Sub Divisional Officer (Revenue), Panna
	92	Vijayraghavgarh	Sub Divisional Officer (Revenue), Vijayraghavgarh
	93	Murwara	Sub Divisional Officer (Revenue), Murwara
	94	Bahoriband	Sub Divisional Officer (Revenue), Bahoriband
9-SATNA	61	Chitrakoot	Sub Divisional Officer (Revenue), Manjhgavan
	62	Raigaon (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Raghuraj Nagar
	63	Satna	Joint Collector, Satna
	64	Nagod	Sub Divisional Officer (Revenue), Nagod
	65	Maihar	Sub Divisional Officer (Revenue), Maihar
	66	Amarpatan	Sub Divisional Officer (Revenue), Amarpatan
	67	Rampur-Baghelan	Sub Divisional Officer (Revenue), Rampur Baghelan
10-REWA	68	Sirmour	Sub Divisional Officer (Revenue), Sirmour
	69	Semariya	Joint Collector (Land Record), Rewa
	70	Teonthar	Sub Divisional Officer (Revenue), Teonthar
	71	Mauganj	Sub Divisional Officer (Revenue), Hanumana
	72	Deotalab	Deputy Collector, Rewa
	73	Mangawan (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Mangawan
	74	Rewa	Sub Divisional Officer (Revenue) Huzur, Rewa
	75	Gurh	Sub Divisional Officer (Revenue), Gurh
11-SIDHI	76	Churhat	Sub Divisional Megistrate, Churhat
	77	Sidhi	Sub Divisional Megistrate, Gopad Banas
	78	Sihawal	Deputy Collector, Sidhi
	79	Chitrangi (ST)	Additional Collector, Singrauli
	80	Singrauli	Sub Divisional Officer (Revenue), Singrauli

	81	Devsar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Deosar
	82	Dhauhani (ST)	Sub Divisional Megistrate, Majhouli
	83	Beohari (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Beohari
12-SHAHDOL (ST)	84	Jaisinghnagar (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sohagpur
	85	Jaitpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Jaitpur
	86	Kotma	Sub Divisional Officer (Revenue), Kotma
	87	Anuppur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Anuppur
	88	Pushprajgarh(ST)	Additional Collector, Anuppur
	89	Bandhavgarh(ST)	Additional Collector, Umaria
	90	Manpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Manpur
	91	Barwara (ST)	Additional Collector, Katni
	95	Patan	Sub Divisional Officer (Revenue), Patan
13-JABALPUR	96	Bargi	Sub Divisional Officer (Revenue), Jabalpur
	97	Jabalpur Purbā (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Omti Jabalpur
	98	Jabalpur Uttar	Sub Divisional Officer, Kotwali Jabalpur
	99	Jabalpur Cantt.	Sub Divisional Officer (Revenue), Ranjhi Jabalpur
	100	Jabalpur Paschim	Sub Divisional Officer Gorakhpur, Jabalpur
	101	Panagar	Additional Collector-2, Jabalpur
	102	Sihora (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sihora
	103	Shahpura (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Shahpura
14-MANDLA (ST)	104	Dindori (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Dindori
	105	Bichhiya (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Bichhia
	106	Niwas (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Niwas
	107	Mandla (ST)	Additional Collector, Mandla
	116	Keolari	Sub Divisional Officer (Revenue), Keolari
	117	Lakhnadon (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Lakhnadon

	118	Gotegaon (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Gotegaon
15-BALAGHAT	108	Baihar (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Baihar
	109	Lanji	Sub Divisional Officer (Revenue), Lanji
	110	Paraswada	Additional Collector, Baihar
	111	Balaghpat	Sub Divisional Officer (Revenue), Balaghpat
	112	Waraseoni	Sub Divisional Officer (Revenue), Waraseoni
	113	Katangi	Sub Divisional Officer (Revenue), Katangi
	114	Barghat (ST)	Sub Divisional Officer (City), Seoni
	115	Seoni	Sub Divisional Officer (Revenue), Seoni
16-CHHINDWARA	122	Juunardeo (ST)	Sub-Divisional Officer (Revenue), Juunardeo
	123	Amarwara (ST)	Sub-Divisional Officer (Revenue), Amarwara
	124	Churai	Sub-Divisional Officer (Revenue), Churai
	125	Saunsar	Sub-Divisional Officer (Revenue), Saunsar
	126	Chhindwara	Sub-Divisional Officer (Revenue), Chhindwara
	127	Parasia (SC)	Sub-Divisional Officer (Revenue), Parasia
	128	Pandhurna (ST)	Sub-Divisional Officer (Revenue), Pandhurna
17-HOSHANGABAD	119	Narsingpur	Additional Collector (Revenue), Narsinghpur
	120	Tendukheda	Sub Divisional Officer (Revenue), Tendukheda
	121	Gadarwara	Sub Divisional Officer (Revenue), Gadarwara
	136	Seoni-Malwa	Sub Divisional Officer (Revenue), Seoni Malwa
	137	Hoshangabad	Sub Divisional Officer (Revenue), Hoshangabad
	138	Sohagpur	Sub Divisional Officer (Revenue), Sohagpur
	139	Pipariya (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Pipariya
	140	Udaipura	Sub Divisional Officer (Revenue), Bareli
18-VIDISHA	141	Bhojpur	Sub Divisional Officer (Revenue), Goharganj

	142	Sanchi (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Raisen
	143	Silwani	Sub Divisional Officer (Revenue); Begumganj
	144	Vidisha	Sub Divisional Officer (Revenue), Vidisha
	145	Basoda	Sub Divisional Officer (Revenue), Basoda
	156	Budhni	Sub Divisional Officer (Revenue), Budhni
	158	Ichhawar	Sub Divisional Officer (Revenue), Ichhawar
	173	Khategaon	Sub Divisional Officer (Revenue), Kanood
19-BHOPAL	149	Berasia (SC)	Sub Divisional Officer, Tehsil Berasia
	150	Bhopal Uttar	Sub Divisional Officer, Bairagarh Circle
	151	Narela	Sub Divisional Officer, Govindpura Circle
	152	Bhopal Dakshin-Paschim	Sub Divisional Officer, T.T. Nagar Circle
	153	Bhopal Madhya	Sub Divisional Officer, Nazul City Bhopal Circle
	154	Govindpura	Sub Divisional Officer, M.P. Nagar Circle
	155	Huzur	Sub Divisional Officer, Tehsil Huzur
	159	Sehore	Sub Divisional Officer (Revenue), Sehore
20-RAJGARH	30	Chachoura	Sub Divisional Officer (Revenue), Chachoura
	31	Raghogarh	Sub Divisional Officer (Revenue), Raghogarh
	160	Narsinghgarh	Sub Divisional Officer (Revenue), Narsinghgarh
	161	Biaora	Sub Divisional Officer (Revenue), Biaora
	162	Rajgarh	Sub Divisional Officer (Revenue), Rajgarh
	163	Khilchipur	Sub Divisional Officer (Revenue), Khilchipur
	164	Sarangpur (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sarangpur
	165	Susner	Sub Divisional Officer (Revenue), Susner
21-DEWAS (SC)	157	Ashta (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Ashta
	166	Agar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Agar

	167	Shajapur	Sub Divisional Officer (Revenue), Shajapur
	168	Shujalpur	Additional Collector, Shajapur
	169	Kalapipal	Sub Divisional Officer (Revenue), Shujalpur
	170	Sonkatch (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sonkatch
	171	Dewas	Sub Divisional Officer (Revenue), Dewas
	172	Hatpioliya	Deputy Collector, Dewas
22-UJJAIN (SC)	212	Nagda-Khachrod	Sub Divisional Officer (Revenue), Khachrod
	213	Mahidpur	Sub Divisional Officer (Revenue), Mahidpur
	214	Tarana (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Tarana
	215	Ghatiya (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Ghatiya
	216	Ujjain Uttar	Joint Collector, Ujjain
	217	Ujjain Dakshin	Sub Divisional Officer (Revenue), Ujjain
	218	Badnagar	Sub Divisional Officer (Revenue), Badnagar
	223	Alot (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Alot
23-MANDSOUR	222	Jaora	Sub Divisional Officer (Revenue), Jaora
	224	Mandsour	Sub Divisional Officer (Revenue), Mandsour
	225	Malhargarh (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Malhargarh
	226	Suwarsa	Sub Divisional Officer (Revenue), Sitamau
	227	Garoth	Sub Divisional Officer (Revenue), Garoth
	228	Manasa	Sub Divisional Officer (Revenue), Manasa
	229	Neemuch	Sub Divisional Officer (Revenue), Neemuch
	230	Jawad	Sub Divisional Officer (Revenue), Jawad
24-RATLAM (ST)	191	Alirajpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Alirajpur
	192	Jobat (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Jobat
	193	Jhabua (ST)	Sub Divisional Magistrate, Jhabua
	194	Thandla (ST)	Sub Divisional Magistrate, Thandla

	195	Petlawad (ST)	Sub Divisional Magistrate, Petlawad
	219	Ratlam Rural (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Ratlam
	220	Ratlam City	Additional Collector, Ratlam
	221	Sailana (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sailana.
25-DHAR (ST)	196	Sardarpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sardarpur
	197	Gandhwani (ST)	Deputy Collector, Dhar
	198	Kukshi (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Kukshi
	199	Manawar (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Manawar
	200	Dharampuri (ST)	Joint Collector and Land Requisition and Rehabilitation Officer, Sardar Sarovar Rehabilitation Officer, Manavar
	201	Dhar	Sub Divisional Officer (Revenue), Dhar
	202	Badnawar	Sub Divisional Officer (Revenue), Badnawar
	209	Dr. Ambedkar Nagar- Mhow	Sub Divisional Officer (Revenue), Mhow
	203	Depalpur	Sub Divisional Officer (Revenue), Depalpur
26-INDORE	204	Indore-1	Additional Collector, Managing Director A.K.V.N., Indore
	205	Indore-2	Joint Collector, Indore
	206	Indore-3	Additional Collector, Indore
	207	Indore-4	Assistant Collector, Indore
	208	Indore-5	Deputy Collector, Indore
	210	Rau	Deputy Collector, Indore
	211	Sanwer (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sanwer
	183	Maheshwar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Mandleshwar
27-KHARGONE (ST)	184	Kasrawad	Sub Divisional Officer (Revenue), Kasrawad
	185	Khargone	Sub Divisional Officer (Revenue), Khargone
	186	Bhagwanpura (ST)	Joint Collector, Khargone
	187	Sendhawa (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sendhwa
	188	Rajpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Rajpur

	189	Pansemal (ST)	Deputy Collector, Badwani
	190	Badwani (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Barwani
28-KHANDWA	174	Bagali (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Bagli
	175	Mandhata	Sub Divisional Officer (Revenue), Punasa
	177	Khandwa (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Khandwa
	178	Pandhana (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Pandhana
	179	Nepanagar (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Nepanagar
	180	Burhanpur	Sub Divisional Officer (Revenue), Burhanpur
	181	Bhikangaon (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Bhikangaon
	182	Badwah	Sub Divisional Officer (Revenue), Barwaha
29-BETUL (ST)	129	Multai	Sub Divisional Officer (Revenue), Multai
	130	Amla (SC)	Joint Collector, Betul
	131	Betul	Sub Divisional Officer (Revenue), Betul
	132	Ghoradongri (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Shahpur
	133	Bhainsdehi (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Bhainsdehi
	134	Timarni (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Timarni
	135	Harda	Sub Divisional Officer (Revenue), Harda
	176	Harsud (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Harsud

By Order,

Sd/-

(BERNARD JOHN)

Secretary,

Election Commission of India.